

ए0पी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल उझानी में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली व पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली तथा जिलाधिकारी महोदय बदायूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा मिशन शक्ति, यातायात सड़क सुरक्षा, मिशन शक्ति, साइबर सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गयी।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार चलाये जा रहे साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, मिशन शक्ति अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, महिला कल्याणकारी योजनाएं आदि के तत्वाधान में आज दिनांक 27-03-2023 को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली श्री पी0 सी0 मीना आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली श्री डा0 राकेश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं श्री मनोज कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं श्री डा0 ओ0 पी0 सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित किशोर श्रीवास्तव द्वारा ए0पी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल, उझानी में मिशन शक्ति अभियान, यातायात सड़क सुरक्षा अभियान, साइबर जागरूकता अभियान तथा महिला जनकल्याणकारी योजनाओं के तत्वाधान में वृहद जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोग्राम मैनेजर लवलेश कुमार, मिस्टर नीलेश अग्रवाल स्कूल के डायरेक्टर, व ए0पी0एस0 स्कूल के चैयरमैन डा0 विमल कृष्ण अग्रवाल, प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ आदि उपस्थित रहें।

सड़क सुरक्षा जागरूकता स्कूटी रैली/मिशन शक्ति अभियान

सर्वप्रथम महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला अधि0गण/कर्म0गण द्वारा स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो उझानी के अलग-अलग मार्गों से होते हुए वापस ए0पी0एस इन्टरनेशनल स्कूल में समाप्त हुई। महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत स्कूली छात्राओं को शासन-यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा सेवाएं जैसे वूमैन पावर हेल्पलाइन नं0 1090, महिला हेल्पलाइन नं0 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्प लाइन नं0 1098 आदि नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

साइबर जागरूकता

साइबर अपराध में डेविड कार्ड, एटीएम फ्राड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई फ्राड, आनलाइन लाटरी इनाम आदि संबंधित लिंक भेजने संबंधित फ्राड, फेसबुक व वाट्सएप एप संबंधित अपराधों के बारे में विस्तृत रूप से बताया

गया। एवं कैसे इन अपराधों से बचा जाए उन तरीकों को बताया गया साथ ही इस सम्बन्ध में अपील की गई कि अपने पारिवारिक जनों व आस-पड़ोस के लोगों को भी साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जागरूक करें। यदि किसी के साथ वित्तीय फ्राड होता है तो तुरंत साइबर सेल, संबंधित थानों पर तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्यवाही कर आपकी मदद की जा सके। इस अवसर पर प्रभारी साइबर सैल सुरेन्द्र कुमार सागर व कम्प्यूटर आपरेटर केदार चौधरी आदि उपस्थित रहे।

महिला जनकल्याणकारी योजना

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में जानकारी दी गयी। सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रही है। आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ द्वारा ए0पी0एस इन्टरनेशनल स्कूल में वृक्षारोपण किया गया तथा चिड़ियों के लिए पेड़ों पर दाना-पानी को रखा गया। इस दौरान स्कूल के मेघावी छात्र/छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को महोदय द्वारा पुरुस्कृत कर प्रमाण पत्र दिये गये। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली व पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, बरेली तथा जिलाधिकारी महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ द्वारा महिला अधि0/कर्म0गण को मिशन शक्ति प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। उपरोक्त कार्यक्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण व अन्य अधि0गण उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ।